



# MAHAAN FOODS LIMITED

Registered Office: M-19, 1st Floor, M Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 India

Ref: MFL/BSE/2019-20

11<sup>th</sup> February, 2020

The General Manager  
(Listing & Corporate Relations)  
Bombay Stock Exchange Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Mumbai — 400001

**Scrip Code: 519612 MAHAAN FOODS LIMITED**

**SUB: Newspaper Advertisement of the Financial Results for the quarter and Nine Month Ended on 31<sup>st</sup> December, 2019**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Please find enclosed herewith the copies of Unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended 31<sup>st</sup> December, 2019 published in the following newspapers:

1. Financial Express (National Daily newspaper -All English Edition), on 11<sup>th</sup> February, 2020
2. Jansatta (Daily Newspaper- All Hindi Edition), on 11<sup>th</sup> February, 2020

This is for your information and record please.

Thanking You,

Yours faithfully

**FOR MAHAAN FOODS LIMITED**



Ayush Vijay  
Company Secretary & Compliance Officer  
M.NO.: A55853

**Enc: Newspaper Advertisement**

CIN: L15419DL1987PLC350285

+91 11 43107200 info@mahaanfoods.com http://mahaanfoods.com

PROMPTED BY CORONAVIRUS

# Now carmakers moonlight as face masks manufacturerers

The world's biggest manufacturer's production capacity of almost 15 million masks a day isn't enough in the current crisis. The quick switch from one product to another underscores China's strength as a manufacturing powerhouse and highlights the urgency with which companies are trying to stop the deadly virus from paralysing operations.

**BLOOMBERG**  
Beijing, February 10

A SHORTAGE OF face masks has prompted Chinese companies from car manufacturers to energy providers to start making their own to help fight the coronavirus.

Auto companies including BYD have reconfigured production lines to help block particles and germs, with petroleum giant Sinopec and iPhone assembler Foxconn joining the fray. Some are also dabbling in disinfectant and goggles.

While China is the world's biggest manufacturer, its current production capacity of

almost 15 million masks a day isn't enough in the current crisis. The quick switch from one product to another underscores China's strength as a manufacturing powerhouse and highlights the urgency with which companies are trying to stop the deadly virus from paralysing operations.

China has declared a "people's war" against the most serious virus outbreak in decades that's led to more than 90,000 fatalities. At stake is also the country's economy, as companies struggle to resume production after a national Lunar New Year's holiday that was extended to help contain the virus. Without proper safety measures such as masks, companies risk the outbreak spreading among employees.

While China made more than 5 billion face masks on the mainland last year — about half the world's output — there's still a shortage as the number of infections soars. Local governments including the municipal authority of Beijing have banned civil servants from wearing the N95-type masks

## Virus cases emerge in Singapore's financial hub

SINGAPORE'S CORONAVIRUS outbreak has spread to its financial centre, with some staff at major companies being told to work from home for at least the next few days and temperature screening checkpoints set up at the front doors of several towers.

A worker at an unnamed firm in Marina Bay Financial Centre Tower 1 has been confirmed as being infected with the virus over the weekend, according to a circular to tenants by the building's manager Raffles Quay Asset Management. Another case at nearby Clifford Centre, in the heart of the central business district, is an employee of United Industrial, according to an

advisory to tenants in the building where UIC is located. The affected premises in both buildings have been disinfected and all tenants informed, the property managers said in the notices dated February 9.

Singapore last week raised its disease response level to the same grade used during the SARS epidemic, as it braced for what Prime Minister Lee Hsien Loong said was a "major test for our nation."

There are 45 confirmed cases of coronavirus in Singapore — the largest number of infections outside China, excluding a quarantined cruise ship in Japan. —BLOOMBERG

lines with a daily capacity of 1.7 million masks and put out its first batch on Sunday. Warren Buffett-backed BYD said it'll start mass-producing masks before February 17 with capacity rising to 5 million — and 50,000 bottles of disinfectant liquid — a day by the end of the month.

The company knows for its electric vehicles and batteries will supply the first batches to drivers of buses, taxis, and ride-hailing cars, as well as volunteers and staff at airports and airlines. It will also provide products to its own workers, a company official said.

Foxconn began making masks on February 5 for its 1 million employees, saying daily production is expected to reach 2 million pieces by the end of the month. Truckmaker Shaanxi Automobile Group started making goggles on Sunday and is capable of producing more than 3,000 a day, according to local media reports.

# China's virus-stricken cities world's biggest ghost towns

**BLOOMBERG**  
Shanghai/Beijing, Feb 10

SHANGHAI JOINED BEIJING back at work on Monday, but the megacities that govern the world's second-largest economy remained eerily quiet as many logged on from home to avoid worsening the coronavirus outbreak.

Commuters who did go in traversed deserted streets to arrive at empty offices as local government decrees extending the Lunar New Year break to 17 days expired. In Shanghai, like Beijing a week earlier, many workers stayed at home to avoid contracting the disease, leaving vast infrastructure networks mostly idle.

Malls around Shanghai's Nanjing West Road shopping district were open, but saw few shoppers and the normally bustling Lujiazui financial district sat almost empty. The front desks of some apartment buildings were piled high with groceries and food orders, as many of the city's more than 20 million residents ordered deliveries instead of venturing out into a community that has



Chinese consumers are participating in one of the largest ever work-from-home experiments, as the country tries to keep its economy moving even as virus cases continue to mount

almost 300 confirmed cases of the deadly new virus.

Some orders for securities were also slowed down, with few people on site to handle them.

"Everything is good, except you can't place any orders when working from home," said He Qi, a portfolio manager with Huatai-PineBridge Fund Management Co. "We have a few portfolio managers taking turns to work from the office. It's alright if you don't plan to make any big adjustments to your portfolio in the near term, but if you do then it's time to trouble the PMs on duty."

The situation remained largely the same in Beijing, where the holiday had ended a week earlier. The usually crowded shopping area of Sanlitun was so empty on Monday morning that a father and son kicked a soccer ball around the outdoor Taikoo Li mall. They were wearing masks, like just about everyone else out.

Chinese companies are participating in one of the largest-ever work-from-home experiments, as the country tries to keep its economy moving even as virus cases continue to mount.

## Discontent grows among HSBC workers ahead of business review

**BLOOMBERG**  
London, February 10

A SURVEY OF HSBC Holdings's 2,37,000 staff has highlighted falling morale as employees brace themselves for job cuts in a strategy review due later this month.

At HSBC's European arm, confidence in the direction of the bank dropped 21 points in the second half of 2019 compared to the first half, according to an internal document seen by Bloomberg News.

Only 38% of employees in Europe, which is excluded to the UK business and is expected to bear the brunt of the coming cuts, said they felt confident about the company's future, while 28% were recorded saying they were seeing a "positive impact" from the bank's strategy, a fall of 15 percentage points.

The findings expose an unstable period at the bank, which ousted its former boss John Flint last August before embarking on sweeping changes under interim chief executive officer Noel Quinn.

The impact of the coronavirus prompted HSBC to offer liquidity relief to clients on Monday in Hong Kong, where it makes about a third of its revenue, adding to the uncertainty ahead of a strategic review expected alongside results on February 18.

"Confidence in the future has dropped everywhere except in some Latam markets," said the bank in documents seen by Bloomberg. Across HSBC, there was an 8 percentage point drop in confidence to 66%.



### PERSONAL

**I, Rajbir Kaur w/o Karanbir Singh Brar r/o 6, Jor Bagh, Delhi-110003** have changed my minor daughter's name from Meher Kaur to MEHAR KAUR. 0040531151-1

**I, Rajbir Kaur w/o Karanbir Singh Brar r/o 6, Jor Bagh, Delhi-110003** have changed my minor daughter's name from Ambar Kaur to AMBER BRAR. 0040531151-3

**I, JAISHREE KAPUR d/o A K KAPUR r/o House no. 22, Road no. 25, Punjabi Bagh Extension, Delhi-110026** declare that name of my mother has been wrongly written as NEERU KAPUR in my education certificate issued by CBSE. The actual name of my mother is NIRUPAMA KAPUR. 0040531141-1

**I, JAGDEEP SINGH s/o BAHADUR SINGH r/o 2/444, Subhash Nagar, Delhi-110027** have changed my minor daughter's name from SURBHI to SURBHI NAGPAL. 0040531190-3

**I, JAGDEEP SINGH s/o BAHADUR SINGH r/o 2/444, Subhash Nagar, Delhi-110027** have changed my minor son's name from CHIRAG to CHIRAG NAGPAL. 0040531190-1

**I, GAURAV s/o JAGDEEP SINGH r/o 2/444, Subhash Nagar, Delhi-110027** have changed my name to GAURAV NAGPAL. 0040531190-5

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Clix Housing Finance Private Limited is going to create simple mortgage over property i.e. Entire Third Floor with terrace rights, built on Plot No. 1339/1, Street No.-8, Govind Puri, Kalkaji, New Delhi-110019 area measuring 70 Sq. Yds. belongs to Mr. Manoj Mehta and intending to purchase by Mr. Rajiv Singh. The property is free from all type of claims, disputes, encumbrances, charge, decrees etc. In case if any person/Financial Institute/Bank/Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned. Avnish Shukla (Advocate) Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032. 9871603366, 9717476101.

### PUBLIC NOTICE

Under instructions from My clients' Sh. Sambhu Sahni S/o Sh. Hari Sahni & Smt. Bindu Devi W/o Sh. Sambhu Sahni R/o A-6, Street No.3, West Karawal Nagar, Delhi-94, it is informed that my client has decided to break all their relationships with their elder son Sh. Jeevan Kumar, because of his bad conducts, behavior and movable and immovable property situated in Delhi or anywhere in India. After this publication, my clients shall not be responsible for any acts of Sh. Jeevan Kumar and he has no right in my clients properties. Date: 10.02.2020

**NAMAN RAJ THAKUR (Advocate)** Chamber No. E-407, Karkardooma Court, Delhi - 92 & Consultation ROOM Chamber Block-1, Delhi High Court, New Delhi. Mobile No. 9910314975, 9811491359

### PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Clix Housing Finance Private Limited is going to create simple mortgage over property i.e. Upper Ground Floor without roof right. Front Side built on Property No. RZ-F-1/267-A & RZ-F-1/267, area measuring 90 Sq. Yds. Out of total 150 Sq. Yds. Street No.-3, out of Kharsa No. 86/9 & 12 and 86/12, Village Palam, Colony Mahaveer Enclave, New Delhi-110045, belongs to Mr. Ankit Arora & Mr. Nitin Jain and is being purchased by Mr. Deepak Kataria and Mrs. Beena Kataria. The property is free from all type of claims, disputes, encumbrances, charge, decrees etc. In case if any person/Financial Institute/Bank/Authority/Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact at following address within 7 days of this publication. It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned. Avnish Shukla (Advocate) Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032. 9871603366, 9717476101.

## SOMANY

## ZAMEEN SE JUDEY

### EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2019 (Rs. in Lakhs)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter ended		Year Ended	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2019	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.03.2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Revenue from operations								
a) Gross sales	43,159	42,395	1,23,311	1,68,513	43,464	42,459	1,24,651	1,70,833
b) Other operating income	236	160	966	1,042	157	85	751	672
Total income from operations	43,395	42,555	1,24,277	1,69,555	43,621	42,544	1,25,402	1,71,505
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,166	1,482	3,880	7,926	1,666	1,697	4,651	9,234
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,166	2,014	1,262	7,185	1,666	1,746	2,033	8,010
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	870	1,359	2,224	4,630	1,252	1,015	2,850	5,326
Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	870	1,328	2,155	4,610	1,252	984	2,781	5,306
Equity Share Capital	848	848	848	848	848	848	848	848
Other Equity				58,361				60,456
Earning per share								
Basic and Diluted (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary Item)-In Rs. (not annualised)	2.05	3.21	5.25	10.92	2.46	2.16	5.74	10.92

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (http://www.somanyceramics.com) and the Stock Exchange websites of BSE (http://bseindia.com) and NSE (http://nseindia.com).  
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Date : February 10, 2020  
Place : New Delhi  
Somany Ceramics Limited  
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West Bengal - 700001 Website: www.somanyceramics.com | CIN: L40200WB1968PLC224116  
For Somany Ceramics Limited  
Shreekant Somany  
Chairman & Managing Director  
DIN 00021423

## पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)



### Reviewed Un-audited Financial Results for the Quarter/ Nine Months ended 31<sup>st</sup> December, 2019 (₹ in Lacs)

Particulars	Quarter ended 31.12.2019 [Reviewed]		Quarter ended 30.09.2019 [Reviewed]		Quarter ended 31.12.2018 [Reviewed]		Nine Months ended 31.12.2019 [Reviewed]		Nine Months ended 31.12.2018 [Reviewed]		Year ended 31.03.2019 [Audited]	
	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2019	2019	2018	2018	2019	2019
Total income from operations	207701	222257	233713	653749	708258	938695						
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-34737	-72193	3129	-113429	-82914	-85877						
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-34737	-72193	3129	-113429	-82914	-85877						
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-25549	-46873	2234	-75450	-48491	-54348						
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-25549	-46873	2234	-75450	-48491	-54348						
Paid up Equity Share Capital	70105	60206	56491	70105	56491	56491						
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year	420668	420668	477073	420668	477073	420668						
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)												
1. Basic :	-3.96	-7.79	0.40	-12.47	-8.58	-9.62						
2. Diluted:	-3.96	-7.79	0.40	-12.47	-8.58	-9.62						

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Year to date Financial Results is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and Bank's website: www.psbindia.com

Place : New Delhi Date : 10.02.2020  
GOVIND N DONGRE EXECUTIVE DIRECTOR  
FAREED AHMED EXECUTIVE DIRECTOR  
S. HARISANKAR MANAGING DIRECTOR & CEO  
CHARAN SINGH NON EXECUTIVE CHAIRMAN

Do not share your internet banking details, such as, User ID/Password or your credit card/debit card number/CVV/OTP with anyone either over phone or through e-mail. Toll Free No.: 1800 419 8300

**Mahaan Foods Limited**  
Regd. Office: M-19, 1<sup>st</sup> Floor, M Block Market, Greater Kailash - II New Delhi - 110043  
Tel: 011-43107200, Fax: 011-43107250, E-mail: csmtf@mahaanfoods.com, Website: www.mahaanfoods.com  
(CIN : L15419DL1987PLC350285)

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31-12-2019 (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended						Year Ended					
	31/12/2019		30/09/2019		31/12/2018		31/12/2019		31/12/2018		30/03/2019	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	266.48	14.18	58.13	376.90	83.27	135.02						
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	86.34	8.84	31.85	118.18	31.97	42.48						
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	86.34	8.84	318.10	118.18	318.22	328.73						
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	72.03	3.99	311.37	96.75	308.86	319.46						
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	72.03	3.99	311.37	96.75	308.86	319.46						
Equity Share Capital	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07	350.07						1342.42
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-						
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -												
1. Basic:	2.05	0.11	8.90	2.76	8.82	9.13						
2. Diluted:	2.05	0.11	8.90	2.76	8.82	9.13						

NOTE:  
• The above financial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors in its meeting held on 10<sup>th</sup> February, 2020.  
• The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine month ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company's website www.mahaanfoods.com.

For Mahaan Foods Limited  
Sd/-  
Sanjeev Goyal  
Managing Director  
DIN: 00221099

Place : New Delhi  
Date : 10.02.2020

